



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 725 राँची, शनिवार,

14 सितम्बर, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

04 सितम्बर, 2019 ई०।

संख्या-11/स्था०अराज०-07/2013- 4743 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक-23.06.2016 द्वारा "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली-2016" प्रवृत्त है।

उक्त नियमावली में नियमावली की कंडिका-16 (ii) में निहित प्रावधान के तहत झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा मिश्रक उपवर्ग के वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-2800 को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने हेतु निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जाएगी।

(ii) विस्तार:- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

(iii) प्रारम्भ:- यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली-2016" की कंडिका-4 एवं 13 में अंकित तालिका में मिश्रक के वेतनमान से संबंधित पंक्ति को वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-660/वि०, दिनांक-28.02.2009 में स्वीकृत वेतनमान के आलोक में निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है-

(क) कंडिका-4 (ii). भर्ती एवं नियुक्ति-

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	भर्ती प्रकार
3	मिश्रक	5200-20200 ग्रेड पे- 1900	सीधी भर्ती द्वारा (नियमावली के अध्याय 03 में विहित प्रक्रिया द्वारा)

(ख) कंडिका-13. प्रोन्नति-

क्र०	पदनाम	वेतनमान
1	मिश्रक	5200-20200, ग्रेड पे-1900
2	वरीय मिश्रक	
3	प्रधान मिश्रक	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
